

28th May 2024

**To,**Listing Compliances **BSE Ltd**P. J. Towers, Fort,
Mumbai – 400 001.

Scrip Code : 542866

Scrip Id : COLABCLOUD

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of Audited Standalone Financial Results for the quarter and Financial Year ended on 31st March 2024.

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that the Board of Directors at their meeting held on Monday, 27th May 2024 and have inter-alia considered and approved the Audited Standalone Financial Results for the quarter and Financial Year ended on 31st March 2024.

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in following newspaper is enclosed herewith:

- English Newspaper (Having Nationwide Circulation)
- Hindi Newspaper (Having Regional Circulation)

You are requested to take the above cited information on your records.

Thanking you,

For Colab Cloud Platforms Limited

(Formerly known as JSG Leasing Limited)

Deepika Undhad Company Secretary & Compliance officer Membership No.: A41244

Encl: As above

CIN: L51109WB1974PLC029637 Regd. Office: 14, Taratolla Road, Kolkata- 700 088 Ph: 033-30489299, Fax: 033-30489230 Email: investors@ifbglobal.com Website: www.ifbindustries.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of IFB Industries Limited has been rescheduled due to bad weather on account of 'cyclone Remal' and will be held on Tuesday, 28th May, 2024 to consider and take on record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024 beside other matters.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.ifbindustries.com and also on the website of Stock Exchanges viz. Bombay Stock Exchange Ltd — www.bseindia.com.

By order of the Board NOTICE

By order of the Board For **IFB Industries Limited** Ritesh Agarwal Company Secretary Date: 27.5.2024



INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT BARODA SUN TOWER. MUMBAI

#### TENDER NOTICE

Bank of Baroda invites proposals for Supply, Installation and Maintenance of Load Balancers at DC / DR for a period of 5 years. Details are available on Bank's website www.bankofbaroda.in under Tenders section and on Government e-Marketplace (GeM) portal. "Addendum", if any, shall be published on Bank's website www.bankofbaroda.in under Tenders section and GeM portal. Bidders must refer the same before final submission of the proposal. Last date for bid submission: 18th June 2024

Chief General Manager 57/52 (IT) \$2.45 Place: Mumbai Date: 28.05.2024





#### INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED

The Largest Global Bed Linen Company

## **COMFORT FOR OUR INVESTORS EVEN MORE FOR OUR CUSTOMERS**

#### **Highest Ever Revenue & EBIDTA**

Indo Count has achieved a new milestone in the financial year 2023-2024. As a testament to our consistent performance, we continue to be the World's largest manufacturer of bed linen. In continuation of Indo Count's legacy, we have acquired the world-renowned brand Wamsutta. Also, we have taken licenses for the brands, Fieldcrest and Waverly.

#### HIGHLIGHTS OF THE FINANCIAL RESULTS OF FY 2023-2024

₹ 1093 Cr.

Complete Comfort

**Highest** Quarterly Revenue

₹ 3601 Cr.

Highest **Annual** Revenue

₹ 603 Cr.

**Highest Annual EBIDTA** 

Increased **Net Worth** 



CIN: L72200PN1988PLC068972 | www.indocount.com | info@indocount.com

### Personal Finance, **Insight Out**



Personal Finance, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



#### NOTICE

Teerth Gopicon Limited made a mark in domain of infrastructure development. Company won a long fought battle pertaining to recovery case. Background of litigation - Pooja realty has appointed TGL to execute construction work at residential project site DB Pride at Indore. Due to default in payment resulted in dispute between the parties in year 2021. Teerth Gopicon Ltd sued Pooia Realty Pvt Ltd and DB infrastructure P Ltd for recovery of damages and amount for execution of work. Madhya Pradesh High Court appointed J. GS Solanki Retd. Judge Madhya Pradesh High Court as arbitrator to adjudicate the dispute. Final claim of Rs. 29 Cr is passed in the favor of Teerth Gopicon Limited.

#### **Colab Cloud Platforms Limited** (Formerly known as JSG Leasing Limited) CIN: L65993DL1989PLC038194

Regd. Off.: 125, 2nd Floor, Shahpur Jat, New Delhi - 110 049. Phone: 8828865429; Fmail: isgleasinglimited@gmail.com: Web: www.isgleasinglin Extracts of the statement of Audited Financial Results for the Financial Year ended of

31st March 2024. (Amount in 'Lakhs' except EPS)

	otanualone		
Particulars	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)
otal income from operations (net)	26.481	225.546	51.010
let Profit/(Loss) for the period			
before tax and exceptional items)	19.166	177.917	47.512
let Profit/(Loss)for the period before tax			
after exceptional items)	40.002	198.753	47.512
let Profit / (Loss) for the period after tax	19.889	178.753	17.705
Paid-up Equity Share Capital			
Share of Rs. 2/- each)	2040.000	2040.000	1020.000
arning per equity share			
Basic	0.097	0.876	0.087
Diluted	0.097	0.876	0.087
lote:			

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Result for the quarter ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com) Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified whereve considered necessary By Order of the Board

For Colab Cloud Platforms Limited (Formerly known as JSG Leasing Limited) Date: 27.05.2024

Mukesh Jadhav Chairman & Non-executive Director DIN: 09539015

### **NOTICE**



#### Transfer of equity shares of the Company to the Investor

Education and Protection Fund Authority (IEPFA)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") the Final Dividend declared for the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investor Education Protection Fund (IEPF) within a period of 30 days after the due date, i.e., September 05, 2024. The Shares on which Final Dividend was unclaimed for seven consecutive years startise from 2016 17, will see the transferred as extent to reconstruct the second consecutive that the procedure of the pr starting from 2016-17 will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

The Company will not transfer such Shares to the IEPFA where there is a specific order of Court/ Tribunal restraining transfer of such Shares or where the Shares are hypothecated/ pledged under the Depositories Act, 1996. In compliance to the Rules, the Company has already communicated individually the shareholders concerned and the details of Dividend and Shares liable to be transferred to IEPF and IEPFA respectively are also made available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link https://www.vauard.in/investor-relations/shareholder-information-new\_to verify the details of their uncashed dividend and the shares liable to be

Shareholders who have not claimed Final Dividend for the Financial Year 2016-17 are requested to claim the same at the earliest. The last date to process the claim is September 05, 2024.

process the claim is September 05, 2024.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPFA, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPFA and upon such issue, the Company shall inform the Depository by way of Corporate Action to convert the Duplicate Share Certificates into DEMAT form and transfer in favor of IEPFA. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Shareholders holding shares in dematerialized form and whose shares are liable to be transferred to IEPFA, may note that the Company shall inform the Depository by way of Corporate Action for transfer of Shares in favor of the DEMAT account of the IEPFA.

Chairsier or States in Tayor of the DEMAT account of the IEPFA. Shareholders may further note that the details of unclaimed Dividend and Shares of the concerned shareholders made available by the Company on its website shall be treated as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPFA.

In case, the Company does not receive any request from the shareholders concerned on or before September 05, 2024, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules shall transfer the Dividend to the IEPF within a period of 30 days after the due date.

The shares on which Dividend is unclaimed for seven consecutive years shall

In a snares on which Dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of Unclaimed Dividend account and shares transferred to the IEPF Authority. Shareholders may claim the Dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd, Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore – 641 028, Tel: 0422 2314792, E-mail: coimbatore@linkintime.co.in.

For V-GUARD INDUSTRIES LIMITED Sd/-Vikas Kumar Tak Company Secretary

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED. Read. Office: 42/962. Vennala High School Road, Vennala P.O, Ernakulam – 682 028, Kerala, India. I Ph: 0484-4335000. E-mail: mail@vguard.in I Website: www.vguard.in I CIN: L31200KL1996PLC010010

27.05.2024

Registered Office: Level 9, Unit 801, Centrum House, CST Road, Vidyanagri Marg, Kalina, Santacruz East, Mumbai – 400 098. Contact No: 022 – 42159000 | Website: www.pyxisfinvest.com | E-mail Id: pyxisfinvestltd@gmail.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 29,91,000 (TWENTY NINE LAKHS NINETY ONE THOUSAND) EQUITY SHARES FROM SHAREHOLDERS OF PYXIS FINVEST LIMITED ("PYXIS") BY MR. UTTAM BHARAT BAGRI (HEREIN AFTER JOINTLY REFER TO AS "ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) & 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Advertisement ("Pre Offer Public Announcement") is being issued by Aryaman Financial Services Limited, the Manager to the Offer ("Manager"), on behalf of the Acquirer, in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended ("SEBI (SAST) Regulations, 2011") in respect of Open Offer ("Offer") to acquire 29,91,000 (Twenty Nine Lakhs Ninety One Thousand) Equity Shares of ₹ 10/- each, being constituting 26.00% of the Target Company on a fully diluted basis at a price of ₹ 17/- (Rupees Seventeen Only) per fully paid-up Equity Share (the "Offer Price") and applicable Interest of ₹ 0.50/- (Fifty Paise Only) both amounting to ₹ 17.50/- (Rupees Seventeen and Fifty Paise Only) per Equity Share ("Offer Price") plus Applicable Interest"). This Pre Offer Public Announcement is to be read with Public Announcement dated December 19, 2023 ("PA") along with the Detailed Public Statement ("DPS") published on December 27, 2023 in Business Standard (English - All Editions), Business Standard (Hindi - All Editions) and Pratahkal (Marathi -Mumbai Edition) with respect to the aforementioned Offer.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE OFFER.

- (1) The Offer Price is ₹ 17/- (Rupees Seventeen Only) per fully paid-up Equity Share (the "Offer Price") and applicable Interest of ₹ 0.50/- (Fifty Paise Only) both amounting to ₹ 17.50/- (Rupees Seventeen and Fifty Paise Only) per Equity Share ("Offer Price plus Applicable Interest") per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with the Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of Offer. There has been no revision in the Offer Price.
- (2) Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommends that the Offer Price of ₹ 17/- (Rupees Seventeen Only) is fair and reasonable. The recommendation of IDC was published on May 27, 2024 (Monday) in the same newspapers where the DPS was published.
- This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. There has been no competitive bid to this Offer. The Letter of Offer dated May 17, 2024 ("LoF") has been dispatched through electric means to all the Public Shareholders of the Target Company whose name
- appeared on the register of members on May 14, 2024 ("the Identified Date") and who have registered their e-mail ids with the Depositories and / or the Target Company, and the dispatched through Physical means to all the remaining Public Shareholders on or before May 21, 2024. Please note that a copy of the Letter of Offer will also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" at page 21 of the Letter of Offer in relation to
- inter alia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:
- In case the Equity Shares are in dematerialized form:
- Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.16 of the Letter of Offer.
- In case the Equity Shares are in physical form:

Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant

In case of non-receipt of the LoF:

Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the LoF from the SEBI's website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.afsl.co.in. Alternatively, in case of non-receipt of the LoF, Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the LoF. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date.

Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of BSE which will be made available BSE before the closure of the Tendering Period.

- In terms of Regulation 16(1) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on January 03, 2024. SEBI vide its letter dated April 26, 2024, bearing reference no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR2/P/OW/2024/15434/1 has issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and the observations have been duly incorporated in the Letter of Offer.
- (8) There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the PA, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- (9) The Equity Shares of the Target Company are listed on the SME Platform of BSE and the trading market lot is 4.000 Equity Share & in multiple of 4.000 thereafter. (10) As on the date of this advertisement, there are no statutory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Open Offer. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer.
- (11) Completion of the Open Offer and the underlying transaction, as envisaged under the SPA, are subject to the prior approval of the Reserve Bank of India (RBI) Master Direction – Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company – Scale Based Regulation) Directions, 2023, as amended from time to time. The said approval from RBI is received via letter bearing reference number DoS.CO.RSG No. S1030/02.13.001/2024-25 dated May 10, 2024.

(12) Schedule of Activities:

Major Activities	Original Schedule	Revised Schedule
Public Announcement	December 19, 2023 (Tuesday)	December 19, 2023 (Tuesday)
Publication of Detailed Public Statement	December 27, 2023 (Wednesday)	December 27, 2023 (Wednesday)
Filing of Draft Letter of Offer with SEBI	January 03, 2024 (Wednesday)	January 03, 2024 (Wednesday)
Last Date for a Competitive Bid <sup>(1)</sup>	January 17, 2024 (Wednesday)	January 17, 2024 (Wednesday)
Receipt of Comments from SEBI on Draft Letter of Offer	January 24, 2024 (Wednesday)	April 26, 2024 <sup>(2)</sup> (Friday)
Prior approval of RBI	NA	May 10, 2024 <sup>(3)</sup> (Friday)
Identified Date <sup>(4)</sup>	January 29, 2024 (Monday)	May 14, 2024 (Tuesday)
Date by which Letter of Offer be posted to the Shareholder	February 05, 2024 (Monday)	May 21, 2024 (Tuesday)
Comments on the Offer by a Committee of Independent Directors constituted by the BODs of the Target Company	February 08, 2024 (Thursday)	May 27, 2024 (Monday)
Last Day of Revision of Offer Price / Share	February 09, 2024 (Friday)	May 28, 2024 (Tuesday)
Issue of advertisement announcing the schedule of activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspapers	February 09, 2024 (Friday)	May 28, 2024 (Tuesday)
Date of Opening of the Offer	February 12, 2024 (Monday)	May 29, 2024 (Wednesday)
Date of Closing of the Offer	February 26, 2024 (Monday)	June 11, 2024 (Tuesday)
Date of communicating the rejection / acceptance and payment of consideration for the acquired share	March 11, 2024 (Monday)	June 25, 2024 (Tuesday)

- 1) There was no competing offer
- 2) Date of receipt of SEBI's letter giving final comments on the DLOF.
- 3) RBI prior approval for the change in shareholding and management of the Target Company is received on May 10, 2024. As per SEBI's letter, the tendering period
- for the Open Offer may commence not later than 12 working days from the receipt of RBI approval. 4) Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except Acquirer, persons deemed to be acting in concert with Acquirer and the Seller of the Target Company) are eligible to participate in the offer anytime before the closure of the Offer.

The Acquirer accept the responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

THIS ANNOUNCEMENT IS ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:



**ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED** 

(CIN No.: L74899DL1994PLC059009)

60, Khatau Building, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Towers (BSE Building), Fort, Mumbai – 400 001. Tel: 022 - 6216 6999 | Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in | Contact Person: Mr. Deepak Biyani

Place: Mumbai Date: May 28, 2024

**₹ 376.8** आज का बंद भाव

#### वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स <sup>660</sup> वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही 640 शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 57 प्रतिशत घटा <del>-</del> 620 ₹ 631.1 पिछला बंद भाव , 600 ₹ 617.2 आज का बंद भाव



चौथी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 134 प्रतिशत बढ़ा ₹ 514.6 पिछला बंद भाव

₹ 529.2 आज का बंद भाव

369.6-**- 340.0** 347.3

पनामा पेट्रोकेम

वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 20 प्रतिशत बढ़कर 61 करोड़ रुपये हुआ ₹ 347.3 पिछला बंद भाव ₹ 369.6 आज का बंद भाव

लक्ष्मी मशीन वर्क्स \_17,400 चौथी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत घटा

\_\_16,600 **₹ 16,715.1** पिछला बंद भाव 16,459.0 1,16,200 ₹ 16,459.0 প্রাজ কা बंद भाव
May 2024 May May 24 27 -1.5 % ▼



### संक्षेप में

### टिमकेन इंडिया के प्रवर्तक 6.6 फीसदी हिस्सा बेचेंगे

टिमकेन इंडिया के प्रवर्तक कंपनी की 6.6 फीसदी हिस्सेदारी (50 लाख शेयर) मंगलवार को ब्लॉक डील के जरिये बेचेंगे। शेयर बिक्री का कीमत दायरा 3,550 से 3,951.5 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर प्रवर्तक इकाई 1,975 करोड़ रुपये जुटा पाएगी। टिमकेन इंडिया का शेयर 4.5 फीसदी गिरकर 3.953 रुपये पर बंद हुआ। शेयर बिक्री के बाद प्रवर्तक टिमकेन सिंगापर की हिस्सेदारी टिमकेन इंडिया में घटकर 51.05 फीसदी रह जाएगी।

### बीएसई ने डाउ जोंस का 50 प्रतिशत हिस्सा खरीदा

बीएसई ने सूचकांक प्रदाता एआईपीएल में संयुक्त उपक्रम भागीदार एसऐंडपी डाउ जोंस (एसपीडीजे) इंडेक्सेज से 30 करोड़ रुपये में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद को स्वीकृति दे दी है। इस संयुक्त उपक्रम से डाउ जोंस इंडेक्सेज 31 मई से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। सूचकांक प्रदाता एआईपीएल सौदा पुरा होने के बाद बीएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई बन जाएगी और एसपीडीजे सिंगापुर के साथ संयुक्त उपक्रम समाप्त हो जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने दिसंबर 2023 में इस अ धिग्रहण को मंजुरी दे दी थी।

### ब्लूस्मार्ट ने पेश की 'ब्लूस्मार्ट चार्ज' ऐप

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ब्लुस्मार्ट ने दिल्ली-एनसीआर और बेंगलूरु के अपने उपयोगकर्ताओं के लिए निकटस्थ ईवी चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने में मदद करने के वास्ते एक नई ऐप - ब्लूस्मार्ट चार्ज पेश की है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई यह ब्लस्मार्ट चार्ज ऐप फ्लीट ऑपरेटरों और लोगों सहित सभी ईवी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पुरा करेगी। यह ऐप उन्हें अद्वितीय सुविधा प्रदान करेगी और ईवी ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करेगी। इस ऐप के साथ-साथ ब्लूस्मार्ट ने अपने चार्जिंग बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का भी विस्तार किया और अपना 50वां ईवी चार्जिंग केंद्र खोलकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

### जिप इलेक्ट्रिक ने 1.5 करोड़ डॉलर जुटाए

जिप इलेक्ट्रिक ने जापान की कंपनी ईएनईओएस से 1.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा 'सीरीज सी फंडिंग' के तहत 1.5 करोड़ डॉलर जुटाए गए। यह पांच करोड़ डॉलर के वित्त पोषण चक्र का हिस्सा है।

#### **PUBLIC NOTICE**

To Whom It May Concern: This is to inform all concerned individuals that a class action suit/ complaint is pending in the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) at Delhi. The Civil Consumer Complaint bearing Ro. 59 of 2019 title as Deepanshu Pahuja & Ors. Vs. Mys J.M Housing Limited & Ors. under The Consumer Protection Act is filed by 68 residents/allottees of JM Orchid Society (Sector 76, Noida, Gautam Budh Nagar) against M/s J.M Housing Limited and M/s Cross River Construction & Developers Pvt. Limited etc... for inter alia issues pertaining to pending transfer of IFMS, water charges including arrears, electric load of 3300KW, repair, deficiency in services, unfair trade practice, misrepresentation etc. If you believe you may be eligible to join this class action suit, you are hereby requested to come forward & provide relevant information to the undersigned legal representatives/

> M/s Iuris Advocates & Solicitors B-2, First Floor, Jangpura Extension, New Delhi- 110014 Contact No.: 011-41012901 E-mail: mrana@jurisadvocates.com

Please note that participation in the class action suit may involve certain obligations and responsibilities, and it is advisable to seek legal counsel for guidance. This notice is issued pursuant to the orders of the NCDRC, and all interested parties are encouraged to act promptly to

ensure their rights are adequately represented.

Deepanshu Pahuja C/o M/s Juris Advocates & Solicitors B-2, First Floor, Jangpura Extension, New Delhi- 110014 Contact No.: 011-41012901 24 e-mail : mrana@jurisadvocates.com Date:28-05-2024

#### कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (पूर्व में जेएसजी लीजिंग लिमिटेड के रूप में विदित) सीआईएन : 1.65993DL1989PLC038194

पंजी. कार्यालय : 125, द्वितीय तल, शाहपुर जट, नई दिल्ली — 110 049, दूरभाष : 882886542 ईमेल : isgleasinglimited@gmail.com: वेब : www.isgleasinglimited.ltd 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (राशि 'लाख' में, ईपीएस छोडकर)

	एकल		
विवरण	समाप्त तिमाही 31—03—2024 (लेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31—03—2024 (लेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31-03-2023 (लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (निवल)	26.481	225.546	51.010
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि)			
(कर तथा आपवादिक मदों से पूर्व)	19.166	177.917	47.512
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि)			
(आपवादिक मदों के उपरांत)	40.002	198.753	47.512
कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि)	19.889	178.753	17.705
प्रदत्त समता अंश पूंजी			
(रु. 2/— प्रत्येक का अंश)	2040.000	2040.000	1020.000
आय प्रति समता अंश			
मूलभूत	0.097	0.876	0.087
तरलीकृत	0.097	0.876	0.087

उपरोक्त सारांश सेबी (सचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम : के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सा हैं। समाप्त तिमाही के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। पूर्ववर्त्ती वर्ष के आंकड़ों को जहाँ—जहाँ अनिवार्य समझा गया है, वहाँ—वहं

पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है। कृते कोलाब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेर (पर्व में जेएसजी लीजिंग लिमिटेड के रूप में विदित) दिनांक : 27-05-2024 मुकेश जा डीआईएन : 0953901

## **-2.2** % ▼ 2.8 % ईक्यूटी लगाएगी 5 अरब डॉलर

मुंबई, 27 मई

डन की निजी इक्विटी कंपनी ईक्यूटी इस साल भारत में 5 अरब डॉलर तक का निवेश करने की योजना बना रही है, भले ही उसकी इकाई ईक्यूटी प्राइवेट कैपिटल एशिया ने एक नया मिड-मार्केट ग्रोथ फंड बंद कर दिया हो। इस फंड को निवेशकों से कुल 1.6 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई थी।

ईक्यूटी ने नए फंड के लिए किसी देश का लक्ष्य तय नहीं किया है, लेकिन अनुमान है कि मिड-मार्केट ग्रोथ (एमएमजी) फंड के लिए भारत सबसे बडा बाजार होगा। इस फंड ने अब तक चार निवेश किए हैं, जिनमें से दो निवेश भारतीय कंपनियों में किए गए।

ईक्युटी दुनियाभर में 250 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है और उसने भारत में 30 से ज्यादा कंपनियों में 8 अरब डॉलर का निवेश किया है। इन कंपनियों में एचडीएफसी क्रेडिला, इंडियम सॉफ्टवेयर, इंदिरा आईवीएफ और ओ2 पावर मुख्य रूप से शामिल हैं।

इसके साथ, अब ईक्यूटी उन वैश्विक निजी इक्विटी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है जो भारत में बड़े निवेश की योजनाएं बना रही हैं। भारत में 50 अरब डॉलर का निवेश कर चुके ब्लैकस्टोन ग्रुप ने आने वाले वर्षों में यहां 25 अरब डॉलर और लगाने की योजना

चेन्नई मुख्यालय वाली फिशर मेडिकल वेंचर्स

हो गई है।

उपकरण,

को बढ़ाना है।



बनाई है। इस निवेश का मुख्य फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा केंद्र और लॉजि स्टिक पर होगा। न्यूयार्क की केकेआर ऐंड कंपनी भारत में अब तक 11 अरब डॉलर निवेश कर चुकी है और 10 अरब डॉलर और लगाना चाहती है।

इसी तरह, भारत में 17 अरब डॉलर निवेश कर चुकी सिंगापुर की टेमासेक ने अगले तीन साल के दौरान देश में हेल्थकेयर, आईटी, सास और फिनटेक क्षेत्रों में अन्य 9-10 अरब डॉलर लगाने की योजना बनाई है। कनाडा की ब्रुकफील्ड ऐसेट मैनेजमेंट भी भारत के दरसंचार टावर इन्फ्रास्टक्चर, रियल्टी और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में बड़ी निवेशक है और उसने अगले तीन से पांच साल के दौरान देश में 10 अरब डॉलर खर्च करने की योजना तैयार की है।

ईक्यटी का एशिया-केंद्रित मिड-मार्केट बायआउट फंड भारत. दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता देते हुए पूरे एशिया में प्रौद्योगिकी, सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह एशिया में ईक्युटी के लार्ज-कैप बायआउट प्लेटफॉर्म का विस्तार है। ईक्यूटी के एक बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में ईक्यूटी प्राइवेट कैपिटल ने अब 2024 में धन जुटाने का काम पूरा

ईक्यूटी ने कहा कि मिड मार्केट ग्रोथ रणनीति के तहत पूरे एशिया में हाई-ग्रोथ मिड-मार्केट कंपनियों में निवेश किया जाता है। कंपनी ने अपने बयान में कहा

महज 9 प्रतिशत पूंजी एशिया-केंद्रित फंडों की झोली में गई।'

एमएमजी ईक्युटी प्राइवेट कैपिटल ए शिया की लार्जकैप बायआउट रणनीति

### विस्तार की तैयारी

- ईक्यूटी दुनियाभर में 250 अरब डॉलर की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है
- उसने भारत में 30 से ज्यादा कंपनियों में 8 अरब डॉलर का निवेश किया है
- अब ईक्यूटी उन वैश्विक निजी इक्विटी कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है जो भारत में बड़े निवेश की योजनाएं तैयार कर रही हैं
- ब्लैकस्टोन ग्रुप भी भारत में आने वाले वर्षों में 25 अरब डॉलर का और निवेश करेगा

'यह क्षेत्र वैश्विक वृद्धि का केंद्र है और 2024 के अंत तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत योगदान की उम्मीद है। फिर भी, एशिया के निजी बाजार कम ही सेवाएं हैं। उदाहरण के लिए 2023 में वैश्विक रूप से जुटाई गई

का विस्तार है।

### चेन्नई की कंपनी ने बनाई पहली स्वदेशी एमआरआई प्रणाली

आशुतोष मिश्रा नई दिल्ली, 27 मई

(एफएमवीएल) ने आयातित उपकरणों पर देश की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से स्वदेशी मैग्नेटिक सचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र की रेजोनेंस इमेजिंग (एमआरआई) प्रणाली तैयार की है दिग्गज एचसीएलटेक ने प्रोसेसर और इसे हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी होने आईपी कंपनी आर्म के साथ का दावा भी किया है। कंपनी अपनी मेडिकल इमेजिंग साझेदारी का ऐलान किया है। उसके और चिकित्सा प्रौद्योगिकी पेशकश को और वृहद करने साथ मिलकर वह एआई-संचालित के लिए अधिग्रहण और निवेश करने के लिए तैयार है। व्यवसाय संचालन में मददगार भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग बहुत हद तक पारंपरिक सिलिकन चिप

आयात पर निर्भर है और अनुमान है कि 80 से 85 विकसित करेगी। यह फीसदी उपकरण दूसरे देशों से आते हैं। इसी निर्भरता के साझेदारी बाजार में ऐसे कारण हर साल 63,200 करोड़ रुपये का आयात होता उपलबध है। फिशर एमवीएल अब उच्च तकनीक उद्यमों की कराएगी जो सेमीकंडक्टर ..... खरीद और निवेश के प्रति सक्रिय विनिर्माताओं. सिस्टम ओईएम और क्लाउड **किया जाएगा** सेवा प्रदाताओं को अपने कंपनी अब उन कंपनियों के

अधिग्रहण और निवेश की तरफ डेटा केंद्रों की कंप्युटिंग देख रही है जो कंपनियां सीटी दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। स्कैनर, एआई आधारित एक्सरे एचसीएलटेक के कार्यकारी टेलिरेडियोलॉजी उपाध्यक्ष (इंजीनियरिंग ऐंड समाधान और उन्नत डायग्नोस्टिक आरऐंडडी सेवाएं ) अमीर सैथ ने क्षेत्र में हैं। इस विस्तार का उद्देश्य कहा, 'एचसीएलटेक का आर्म के फिशर एमवीएल के पोर्टफोलियो में साथ सहयोग उद्योग के उन अग्रणी विविधता लाना और पॉइंट-ऑफ-कस्टम एआई सिलिकन समाधानों के विकास में योगदान करेगा. जो केयर सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ डायग्नोस्टिक डेटा सेंटर के माहौल में एआई समाधान बाजार में अपनी पेशकशों वर्कलोड से निपटने के तरीके में

ही हमें सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार की अगुआई की भी उम्मीद है।'

कंपनी पूर्व-एकीकृत आर्म नियोवर्स कंप्यूट सबसिस्टम (सीएसएस) का लाभ उठाने की योजना बना रही है ताकि विकास जोखिमों को कम करने में मदद मिले और एआई

वर्कलोड के लिए बेहतर एआई के लिए प्रदर्शन और क्षमता कस्टम विस्तार की दिशा में तेजी सिलिकन से नवीन, बाजार के चिप विकसित अनुकूल समाधान प्रदान की जा सके।

> नोएडा मख्यालय वाली एचसीएलटेक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो 60 देशों में 2.27.000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। कंपनी वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी और सेवाओं, दूरसंचार और मीडिया, खदरा और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में आईटी समाधान मुहैया कराती है।

### 4जी, 5जी ग्राहकों को अतिरिक्त डेटा देगी वी

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 27 मई

अपने आगामी 5जी के लिए जमीन तैयार करते हुए वोडाफोन आइडिया (वी) ने आज पहली बार 5जी और 4जी के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त डेटा की पेशकश करने वाले रीचार्ज प्लान का ऐलान किया। कंपनी ने बयान में कहा कि

सीमित अवधि का 'वीआई गारंटी प्रोग्राम' 4जी और 5जी स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले प्रीपेड ग्राहकों के लिए है। यह एक वर्ष की अवधि के लिए 130 जीबी के गारंटीशुदा अतिरिक्त डेटा के साथ मिलेगा। लगातार 13 चक्रों तक हर 28वें दिन 10 जीबी तक का डेटा ऑटोमैचिक तरीके से उपयोगकर्ता के खाते में डाल दिया जाएगा।

जहां वीआई के उपयोगकर्ताओं को 239 रुपये और उससे अधिक के दैनिक अनलिमिटेड डेटा प्लान की आवश्यकता होगी, वहीं यह पेशकश वीआई के केवल 5जी स्मार्टफोन वाले ग्राहकों के लिए ही मान्य होगी या उनके ग्राहकों के लिए होगी जिन्होंने हाल में नए 4जी स्मार्टफोन में अपग्रेड किया हो।

### मारन, केएएल एयरवेज की तैयारी

# स्पाइसजेट से लेंगे 1,323 करोड़ रुपये का हर्जाना

बीएस संवाददाता चेन्नई, 27 मई

स्पाइसजेट और कलानिधि मारन के बीच लड़ाई में सोमवार को नया मोड आ गया। केएएल एयरवेज और मारन ने कहा कि वे स्पाइसजेट और उसके प्रमुख अजय सिंह से 1,323 करोड़ रुपये से ज्यादा का हर्जाना मांगेंगे। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के उस आदेश को भी चुनौती दी जाएगी, जो शेयर हस्तांतरण विवाद के मामले में विमानन कंपनी के पक्ष में था।

उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के पीठ का आदेश रद्द कर दिया था। एकल खंडपीठ ने मध्यस्थता पंचाट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को ब्याज समेत 579 करोड़ रुपये मारन को लौटाने के लिए कहा गया था। खंडपीठ ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया था।

इसके बाद मारन और केएएल एयरवेज ने अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श के बाद इस फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है। कंपनी के बयान में सोमवार को बताया गया है कि डिक्री धारकों (केएएल एयरवेज और मारन) का मानना है कि उपरोक्त फैसले में काफी खामियां हैं और इसमे आगे जांच की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि इसके

साथ ही वे 1.323 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसका निर्धारण ब्रिटेन की एफटीआई कंसल्टिंग एलएलपी ने किया है। एफटीआई कंसल्टिंग वै श्विक स्तर पर प्रसिद्ध फर्म है जिसकी अनुबंध प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने में विशेषज्ञता है। कंपनी और मारन

केएएल एयरवेज और मारन ने मध्यस्थता पंचाट के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह हमेशा से ही उनकी न्याय की मांग का अभिन्न हिस्सा है। बयान में यह भी संकेत दिया गया

है कि मामले के पक्षकार मध्यस्थता फैसले के निष्पादन के रूप में लगभग 353.50 करोड़ रुपये की लंबित बकाया राशि की वापसी की मांग करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह

कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 13 फरवरी, 2023 तथा 7 जुलाई, 2023 के उन आदेशों के पूर्ण अनुपालन और समर्थन के अनुसार है जिनमें निर्देश दिया गया कि डिक्री धारकों के पक्ष में फैसले को परी तरह लाग किया जाए।

22 मई को स्पाइसजेट ने कहा था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अपने पूर्व प्रवर्तक मारन से 450 करोड़ रुपये का रिफंड मांगेगी। स्पाइसजेट के दावे को खारिज करते हुए मारन की कंपनी केएएल एयरवेज ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में रिफंड के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है और इसलिए पैसा लौटाने की मांग करने का दावा 'बिल्कुल नहीं उठता'।

स्पाइसजेट पिछली तिमाहियों से विमान और इंजन किराये पर देने वाली कंपनियों. ऋणदाताओं और मारन के बकाया भगतान के संबंध में कई कानुनी लड़ाइयों के बीच नकदी संकट से

### फैशन ब्रांड इंडिया ने जुटाए 50 करोड़ रुपये

फैशन ब्रांड इंडिया के विनिर्माता हाई स्ट्रीट एसेंशियल्स ने जेएसडब्ल्यू समृह के चेयरमैन सज्जन जिंदल की पत्नी संगीता जिंदल और अन्य निवेशकों से 50 करोड़ रुपये जुटाने की सोमवार को घोषणा की। इंडिया की सह-संस्थापक शिवानी पोद्दार ने कहा कि वित्त पोषण का तीन-चौथाई हिस्सा अल्पमत हिस्सेदारी के लिए इक्विटी निवेश है, जबकि बाकी कर्ज है। कंपनी के सह-संस्थापक अनुराग मुरली ने कहा कि इंडिया भविष्य में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में जेएसडब्ल्यू की विशेषज्ञता से लाभ उठा सकती है। इंडिया की स्थापना 2012 में की गई थी। वर्तमान में इसके आठ शहरों में 12 विशिष्ट ब्रांड आउटलेट और 150 बड़े खुदरा आउटलेट हैं। भाषा

# ईवी के प्रोत्साहन पर ध्यान देते रहने की जरूरत: किया

क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ

दीपक पटेल नई दिल्ली, 27 मई

केंद्र और राज्य सरकारों को इलेक्टिक वाहनों (ईवी) के प्रोत्साहन पर ध्यान कायम रखना चाहिए क्योंकि शैशव अवस्था वाले इस उद्योग की वृद्धि दर बहुत अच्छी नहीं है और अगले पांच से सात वर्षों तक कम करों के रूप में समर्थन की जरूरत है।

किया इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिक्री एवं विपणन के राष्ट्रीय प्रमुख हरदीप सिंह बराड़ ने बातचीत में बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत में कुल 90,996 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं जो पिछले साल की तुलना में 91 प्रतिशत अधिक रही। फिर भी कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी केवल 2.3 प्रतिशत

ही रही। पड़ोसी देश चीन में ईवी की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत थी। दक्षिण कोरियाई की इस कंपनी ने

साल 2023 में बिना किसी वृद्धि के भारत में 2,55,000 गाड़ियां बेची थीं। एसयुवी मॉडल - सेल्टोस और सोनेट की सफलतापूर्वक दोबारा पेशकश से उत्साहित होकर कंपनी को उम्मीद है कि साल 2024 में पांच से सात प्रतिशत की वृद्धि होगी। बराड़ के अनुसार ये दोनों मॉडल पिछले साल अपना जीवन चक्र पुरा करने के कारण हटाए जा रहे थे लेकिन अपने नए स्वरूप के बाद ये अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

#### हाइब्रिड बनाम ईवी

चूंकि भारत का इरादा साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, इसलिए वाहन विनिर्माता आगे की बेहतर राह को लेकर एकराय नहीं हैं। मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी

जापान की दिग्गज कंपनियां हाइब्रिड वाहनों पर कर कटौती पर जोर दे रही हैं। उनका तर्क है कि अकेले ईवी ही उत्सर्जन में कमी का बोझ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर्स जैसी देसी कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि पूरी ताकत से केवल ईवी पर जोर देने से ही भारत की सड़कें कार्बन मुक्त हो सकती हैं। केंद्र सरकार जापानी कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह पुछे जाने पर कि क्या सरकार को हाइब्रिड कारों पर कर कम करना चाहिए, बराड़ ने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा 'सरकारी नीति में ईवी पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी ओईएम (मुल उपकरण विनिर्माताओं) ने ईवी में भारी निवेश किया है। अगर हम इस मोड पर हाइब्रिड लाने की कोशिश करेंगे तो इससे सभी निवेस बेपटरी हो जाएंगे।'

## आईटीसी होटल कारोबार अलग करने पर राय जुदा गया है, जिसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट

पृष्ट १ का शेष

यह भी नहीं पता है कि ब्रांड के इस्तेमाल के बदले शुल्क के बारे में आईटीसी ओर होटल कारोबार के बीच क्या बात हुई है।

आईटीसी ने आईआईएएस को जवाब देते हुए कहा है, 'स्पष्ट कर दें कि अगर आईटीसी प्रस्तावित कंपनी के शेयर अपने पास नहीं रखती है तो वह कंपनी आईटीसी के ब्रांड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी और न ही उस नाम से जुड़ी साख का फायदा अपने होटल कारोबार में कर पाएगी। इससे उसके शेयरधारकों को नुकसान हो सकता है।'

आईआईएएस की सिफारिश के बारे में पूछे जाने पर आईटीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईआईएएस द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब पहले ही दे दिया

में शामिल किया है। उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं कि अन्य सभी प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों ने होटल कारोबार को अलग करने के पक्ष में मतदान करने की सिफारिश की है।'

इनगवर्न और एसईएस ने पक्ष में मतदान करने को इसलिए कहा है क्योंकि उनके हिसाब से मूल्यांकन पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एसईएस ने कहा है, 'चूंकि आईटीसी होटल्स के पास भी आईटीसी की 60 फीसदी हिस्सेदारी होगी, इसलिए मुल्यांकन कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा आईटीसी होटल्स सूचीबद्ध होगी, इसलिए उसकी कीमत पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये तय होगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।'

एसईएस और इनगवर्न दोनों ने आईटीसी से ब्रांड उपयोग का शुल्क स्पष्ट करने के कहा है। कंपनी ने संकेत दिया है कि वह उद्योग में चल रहे पैमाने के हिसाब से ही होगा। इनगवर्न ने रॉयल्टी शुल्क के अलावा सामान्य परिसंपत्तियों और साझा सेवाओं के बारे में वाणिज्यिक समझौते की शर्तें भी स्पष्ट करने को

एनसीएलटी ने आईटीसी की बैठक बुलाई है, जो 6 जून को होगी। उसके बाद कंपनी मतदान का नतीजा घोषित करेगी।

आईटीसी के बड़े शेयरधारकों में एलआईसी (15.2 फीसदी), सूटी (7.81 फीसदी), मिडलटन इन्वेस्टमेंट (3.9 फीसदी), जीक्यूजी पार्टनर्स ( 1.69 फीसदी ) आदि शामिल हैं।

आईटीसी का शेयर 1.1 फीसदी गिरकर 431.5 रुपये पर बंद हुआ और इस हिसाब से कंपनी का मुल्यांकन 5.39 लाख करोड़ रुपये होता है।